EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

(formerly Emergent Global Edu and Services Limited) CIN L80902DL1983PLC209722

Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi – 110 001; Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914; Email: sotl@somanigroup.com; cs@somanigroup.com; Website:www.eesl.in

November 14, 2025

Manager – Listing, Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Limited, Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai -400 001

Scrip Code: 506180

Sub: Compliance of Regulation 30 - News Paper Publication

Dear Sir,

Please find the enclosed copies of un-audited financial results for the quarter ended 30.09.2025 published in the newspaper "Financial Express" - English Edition and "Jan Satta" - Hindi Edition on 14.11.2025.

Please take the same on records.

Thanking You,

Yours Faithfully, For Emergent Industrial Solutions Limited

(Sabina Nagpal) Compliance Officer

Encl: a/a

फ्यूचोरेस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड CIN: L74899DL1983PLC016586 पंजीकृत कार्यालयः एम-50, द्वितीय तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 वेबसाइट: www.fsl.co.in फोन: 011-41630436, 41634701 30.09.2025 को तिमाही और अर्थवर्ष समाप्ति के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार्रश

163	1188		तिमाही समाप्ति	#16	वर्ष से अवधि	वर्ष समाप्ति	
#20 #1.	विवरण	30-09-25	30-06-25	30-09-24	30-09-25	30-09-24	31-03-25
\$3		अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षत	अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
	संचालन से कुल आय	14.59	0.09	19.59	14.68	19.68	19.86
2	अविषे हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर पूर्व आपवादिक और/पा असल्यारण मर्दे)	(1.34)	(1.31)	6.26	(2.65)	(0.85)	(5.57)
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाम/(श्रानि) (आफ्वादिक और/या असाबारण गर्दे पश्चात्)	(1.34)	(1.31)	6.26	(2.65)	(0.85)	(5.57)
i i	कर पश्चान् अवधि हेतु शुद्ध ताम/(वानि) (अपव्यविक और/वा असाबारण मद पश्चातु)	(0.77)	(1.31)	6.72	(2.08)	(0.39)	(6.09
2	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हामि) (कर पश्चातु) और अन्य कुल व्यापक आप (कर पश्चातु) शामिल]	(0.77)	(1.31)	6.72	(2.08)	(0.39)	(6.09
8	प्रदत्त शेवर पूंजी (अफिन मूल्य 10 रुपये)	1,047.34	1,047.34	1,047.34	1,047.34	1,047.34	1,047,34
7	जन्म इक्विटी (आरक्षित निष्मों) पुनर्मुत्यांकन आरक्षित निष्म को छोड़कर) जैसा कि वर्ष की लेखापरीकित कैलेंस और में दर्शाचा गया है			22			479.1
8	प्रति इष्टिक्टी शेवर उत्तय (1) मूलमूत (2) तरतीकृतः	(0.00)	(0.00)	0.01 0.01	(0.00) (0.00)	(0.00) (0.00)	(0.05

. कंपनी ने 01.04.2019 से इंड-एएस को अपनाया है। तदनसार, यह वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की बारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधित नियम, 2016 के नियम 3 के साथ पढ़ा गया है।

2. 30 सिलंबर, 2025 को समाप्त विमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर, 2025 को आयोजित पैठक में अनुमोदित किया गया है तथा कंपनी के वैचानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी सीमित समीक्षा की गई है।

पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी लागू हो, यथासंघव पुनर्समूहित/पुनर्निर्मित किया गया है।

तिमाही की शुरुआत में कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं थी और तिमाही के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और तिमाही के अंत में निपटान के लिए लंबित नहीं

5. कंपनी मुख्य रूप से वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई है और तदनुसार, परिचालन खंड से संबंधित इंड 108 के अनुसार कोई अलग रिपोर्ट योग्य खंड नहीं हैं।

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 13 नवम्बर, 2025 कृते फ्युचरिस्टिक सॉल्युशंस लिमिटेड हस्तामरकर्ता/-ानदीप संयू (प्रबंध निवेशक)

यूएसएस ग्लोबल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय से. 400, आईटीएल टिवन टॉवर्स, बी—9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतम पुरा, नई दिल्ली 110034 दूरभाष : 011-45824477, वेबसाइट : www.ussgloballtd.com ईमेल : cs.ussglobal@gmail.com, सीआईएन : L74900DL1993PLC056491

(रु. लाख में, आय प्रति अंश छोड़कर)										
क	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वर्ष				
Ħ.		30—09—2025 (अलेखापरीवित)	30—08—2025 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2024 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2025 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2024 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित			
1.	परिचालनों से कुल आय अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक तथा / अथवा असाधारण	7.00	6.50	9.00	13.50	16.30	107.70			
3	मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक तथा / अथवा	(4.34)	(1.68)	3.62	(6.02)	3.77	74.11			
4	असाधारण मदों के उपरांत) कर उपरांत अवधि का निवल लाम / (हानि) (आपवादिक तथा / अथवा	(4.34)	(1.68)	3.62	(6.02)	377	74.11			
5.	असाधारण मदों के उपरांत) अवधि की कुल व्यापक आय [अवधि का लाम / (हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से	(4.34)	(1.68)	3.62	(6.02)	3.77	54.41			
	समाविष्ट]	(4.34)	(1.68)	3.62	(6.02)	3.77	54.4			
6.	समता अंश पूंजी आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्योंकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्त्ती वर्ष के लेखापरीक्षित	1002.00	1002.00	1002.00	1002.00	1002.00	1002.00			
	तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार						416.26			
B	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् तथा अपरिचालित परिचालनों हेतु)–		WH DOW	0.000	- THE WAY					
	1. मूलभूत :	(0.04)	(0.02)	0.04	(0.06)	0.04	0.54			
	2. तरलीकृत :	(0.04)	(0.02)	0.04	(0.06)	0.04	9.54			

टिप्पणियाँ : क) उपरोक्त सारोंश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड (एमएसईआई) के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारोंश है। उक्त त्रमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.ussglobalitd.com पर उपलब्ध हैं। परिणाम नीचे उपलब्ध कराये गये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है।

ख) दिनोंक 30 सितंबर 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वितीय परिणाम, लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा किये जाने के उपरांत सीविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किये जाने के अधीन थे तथा इन्हें निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर

स्थान : नई दिल्ली दिनौंक : 13-11-2025

निदेशक मंडल की ओर से कृते यूएसएस ग्लोबल लिमिटेड मोहित गुप्ता प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 02366798)

यूएसएस ग्लोबल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय से. 400, आईटीएल टि्वन टॉवर्स, बी-9, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतम पुरा, नई दिल्ली 110034 दूरमाष : 011-45824477, वेबसाइट : www.ussgloballtd.com

ईमेल : cs.ussglobal@gmail.com, सीआईएन : L74900DL1993PLC056491

	30 सितंबर 2025 को समाप्त हि					गामों का साराँ	श
					(रु. लास	ा में, आय प्रति	अंश छोड़कर)
화	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वर्ष	
सं		30-09-2025 (अलेखापरीक्षित)	30-08-2025 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2024 (अलेखापरीचित)	30—09—2025 (अलेखापरीक्षित)	30092024 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित)
1. 2.	परिचालनों से कुल आय अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक तथा / अथवा असाधारण	7.00	6.50	9.00	13.50	16.30	107.78
3	मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक तथा / अथवा	(4.34)	(1.68)	3.62	(5.02)	3.77	74,11
Ł	असाधारण मदों के उपरांत) कर उपरांत अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक तथा / अथवा	(434)	(1.68)	3.62	(6.02)	3.77	74.11
5.	असाधारण मदों के उपरांत) अविध की कुल व्यापक आय [अविध का लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से	(4.34)	(1.68)	3.62	(6.02)	377	54.41
6. 7.	समाविष्ट] समता अंश पूंजी आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यॉकन आरक्षित	(4.34) 1002.00	(1.68) 1002.00	3.62 1002.00	(6.02) 1002.00	3.77 1002.00	54,41 1002.00
B.	(परिचालनरत् तथा अपरिचालित						416.26
	परिचालनॉ हेतु}— 1. मूलमूत : 2. तरलीकृत :	(0.04) (0.04)	(0:02) (0:02)	0.04 0.04	(0.06) (0.06)	0.04 0.04	0.54 0.54

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 13-11-2025

क) उपरोक्त सारींश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआई) के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाडी तथा अर्द्धवर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार्राश है। उक्त त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.ussgloballtd.com पर उपलब्ध है। परिणाम नीचे उपलब्ध कराये गये क्युआर कोड़ को स्कैन करके भी देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है।

ख) दिनोंक 30 सितंबर 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा किये जाने के उपरांत साँविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किये जाने के अधीन थे तथा इन्हें निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर 2025 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में अभिलेखित एवं अनमोदित किया गया था।



निदेशक मंडल की ओर से कृते यूएसएस ग्लोबल लिमिटेड हस्ता /-मोहित गुप्ता प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 02386798)

Place: New Delhi

Date: 13.11.2025

"प्रपन्न सं. आईएनसी-26" हंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) न्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विम, द्वितीय तल, पंढित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम. 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

मैसर्स राधे बिल्डहोन प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय : शॉप नं. 25, एम2के मॉल, 16 मंगलेम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में रिधत है

अधिनियम. २०१३ और उसके तहत बनाए गए नियमों कोई हो, के तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती, है जिसमें 29 सितम्बर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है ताकि कपनी को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाण राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने में सक्षम

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रश्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप भर कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शमध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उठिलखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निर्देशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुवना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेंगा गोंप नं, 25, एम2के मॉल, 16 मंगलम प्लेस, डिस्टिक्ट

सॅटर, संक्टर-3, रोडिणी, दिल्ली-110085 कृतो आवेदक की ओर से राधे बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड इस्ता /

(विकास क्मार अग्रवाल दिनांक : 13.11.2025 निदेश स्थान : दिल्ली डीआईएन : 02531515

डिसेंट स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड CIN: U74899DL1990PTC040239 रंजीकृत कार्यालयः 41–वी रामगढ, जहांगीरपुरी, गर्इ दिल्ली, भारत, 110633 केन्द्रीय सरकार से पहले, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र

कंपनियों (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामलें में मामले में **डिसेंट स्पिनर्स प्रा. सिमिटेड** के 41-बी रामगढ, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110033

में अपना पंजीकृत कयांलय हुआ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 (4) और

सुबना सामान्य जनता को दी जाती है कि कंपनी सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिससे अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के ज्ञापन समिति में परिवर्तन की पुष्टि की जा रही है। 03.11.2025 को आयोजित सामान्य आम बैठक में कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को 41-बी रामगढ, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत 110033 से वी.पी.ओ. कोइंड घरौँदा, करनाल, हरियाणा, भारत, 132114 से बदलने के लिए

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों (14) के भीतर आवेदन कंपनी की एक प्रति के साथ आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय **41-वी शमगढ, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110033** और क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन, शीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 में अपने हित की प्रकृति और आवेदक कंपनी के विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामें द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां पंजीकृत ठाक से मेज सकता है या मेज

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से क्षितंद स्थिनर्स प्रा. खिनिदेश स्थानः दिल्ली नरेश कुमार तिषिः 14.11.2025 (निदेशक) अप /ओ- हाउस गं. 2, अशोक सीपी, पी-एनवाई,

पुलिस लाइन के सामने करनाल हरियाणा, भारत 132114

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.

CIN: L74999HR1985PLC019905

Regd. Off: 72-77, HSIIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind-126102 (Haryana) Tel: +91-01681-226645

E-mail: info@leatherchem.com; Website: www.leatherchem.com

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter & Half year ended 30th September, 2025

The Board of Directors of the Company, at the Meeting held on 13th November, 2025 approved the Un-audited financial results for the guarter and half year ended 30th September, 2025. The results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at https://www.leatherchem.com/quarterly-results/and can be accessed by scanning the QR code

> By the Order of the Board For Harvana Leather Chemicals Ltd.

> > Pankaj Jain **Managing Director**

DIN:00206564

(Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

एमरजेंट इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8-बी, 'सागर', 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110 001 दूरभाष : (91) (11) 2378 2022, फैक्स : (91) (11) 2378 2806, ईमेल : cs@somanigroup.com, वेबसाइट : www.eesl.in

۰	एकल									समे		नि संख्या एवं ईर्प	ारस छाइंकर)
			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष-प्रतिवर्ष समाप्त की अवधि वर्ष		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष-प्रतिवर्ष की अवधि		समाप्त वर्ष
	विवरण	30 सितं. 2025	30 जून 2025	30 ਜ਼ਿਜਂ. 2024	30 सितं. 2025	30 सितं. 2024	31 ਸ਼ਾਰੀ 2025	30 सितं. 2025	30 जूब 2025	30 ਦਿਜਂ. 2024	30 ਦਿ _{ਹਾਂ} . 2025	30 ਦਿਜਂ. 2024	31 ਸ਼ਾਰੀ 2025
Ш.		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	कुल राजस्व	12,328.20	5,417.60	5,138.89	17,745.80	64,094.56	79,877.63	12,325.13	5,414.51	5,135.88	17,739.64	64,088.61	79,865.77
2	अवधि हेतु लाभ / हानि (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(23.71)	61.84	1,17	38.13	710.11	533.09	(26.89)	58.60	(2.01)	31.71	703.81	520.43
3	कर पूर्व अवधि हेतु लाभ/हानि (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(23.71)	61.84	1.17	38.13	710.11	533.09	(26.89)	58.60	(2.01)	31.71	703.81	520.43
4	कर पश्चात् अवधि हेतु लाभ(+) / हानि(-) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(17.44)	46.56	0.78	29.12	532.12	396,72	(20.10)	43.85	(1.87)	23.75	518.47	377.70
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट)	(17.44)	46.56	0.78	29.12	532.12	396.12	(20.10)	43.85	(1.87)	23.75	518.47	377.10
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/- प्रति अंश का अंकित मूल्य)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90
7	पुनर्मूल्याँकन आरक्षितियाँ छोड़कर अन्य समतायें, पूर्ववर्त्ती लेखाँकन वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार	-		- COVO	3	74	2,509.92		3	32			2,320.23
8	आय प्रति अंश (असाधारण मदों से पूर्व) (अवार्षिकीकृत) (क) मूलभूत (ख) तरलीकृत	(0.38)	1.02	0.02	0.64 0.64	11.65 11.65	8.68 8.68	(0.44) (0.44)	0.96 0.96	(0.04) (0.04)	0.52 0.52		8.27 8.27
3	आय प्रति अंश (असाधारण मदों के पश्चात्) (अवार्षिकीकृत) (क) मूलभूत (ख) तरलीकृत	(0.38) (0.38)	1.02 1.02	0.02 0.02	0.64 0.64	11.65 11.65	8.68 8.68	(0.44)	0.96 0.96	(0.04)	0.52 0.52	11.35 11.35	8.27 8.27

1) उपरोक्त साराँश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्तुत 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। एकल तथा समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.eesl.in) पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 12-11-2025

Place: Gurugram

Date: 13.11.2025



कृते एमरजेंट इंडिस्ट्रियल सोल्यूरान्स लिमिटेड तरूण सोमानी (अध्यक्ष) डीआईएन: 00011233

बोर्ड के आदेशानुसार

SMFG

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड Grihashakti निगमित कार्यालयः 503 एवं 504, 5वां तल, जी—ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पू.), मुंबई—400051 पंजीकृत कार्यालय : कॉमर्सजोन आईटी पार्क टावर बी, प्रथम तल, सं.111, माउन्ट पूनामल्ली रोड, परूर चेन्नई — 600116 तिमलनाडु

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वामित्वकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत "एसएमएचएफसी" के रूप में संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं(नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है।यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत ब्याज हेतु "**एसएमएचएफसी"** के प्रभाराधीन होगा।

क्र.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों)	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि	अधिग्रहण
सं.	के नाम, एलएएन	(अचल संपत्ति)	एवं राशि	की तिथि
1.	एलएएन : 611439510760747 1. अनिल कुमार,पुत्र हुकम चंद 2. रितु, पत्नी अनिल कुमार	0 कनाल 1 मरला 4 सरसई या 44.44 वर्ग गज, खसरा नंबर 135/1 (5–13), 136/5/3 (6–19) में शामिल, कित्ते 2 रकबा 12 कनाल 12 मरले का 13/2268 हिस्सा यानी 1 मरला 4 सरसई, वर्ष2002–03 के लिए जमाबंदी, गांव–मडलौडा, उप–तहसील–मडलौडा, जिला–पानीपत में स्थित संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, बिक्री विलेख के अनुसार वसीका नंबर 983 दिनांक 6–9–2016 अनिल कुमार पुत्र हुकम चंद के नाम पर दर्ज है। निम्नानुसार सीमा:– पूवरूः रास्ता और प्लॉट 40', पश्चिमः अन्य मालिक 40', उत्तरः असंध रोड 16', दक्षिणः अन्य मालिक और प्लॉट 4'	हजार एक एक सौ	12.11.2025
			/ mm-	च्च अलिकारी

स्थान : पानीपत दिनांक : 12.11.2025 एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED Regd. Office: Unit No 2075, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao Delhi 110006 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140

E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

	Particulars	Q	uarter Ende	ed	Six Mont	Year ended on	
SI.		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	9.10	6.23	4.06	15.33	7.37	30.96
2	Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4.28	0.97	0.02	5.25	(0.84)	12.03
3	Net Profit/(Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.28	0.97	0.02	5,25	1.43	12.03
4	Net Profit/(Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.64	(0.25)	(2.21)	2.39	(3.07)	5.68
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.64	(0.25)	(2.45)	2.39	(3.23)	5.68
6	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		84	120		-	329.91
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (in ₹): 2. Diluted (in ₹):	0.36 0.36	(0.03) (0.03)	(0.33) (0.33)	0.33 0.33	(0.44) (0.44)	0.77 0.77

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and six months ended 30th September, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and six months ended 30th September, 2025 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msei.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

For Atlantic Commercial Company Limited Narendra Kishore Gaur Director DIN No. 00168265

एएमएस. पॉलिमर्स लिमिटेड (पूर्व में साई मोह ऑटो लिंक लिमिटेड) पंजी. कार्या: सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034

CIN: L34300DL1985PLC020510, फोन: 011-27032701/02 | फैक्स: 011-27027995 वेबसाइटः www.amspolymers.com, ईमेलः polymersams@gmail.com ,30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में) (ई.पी.एस. को छोड़कर)

			ર. (તાલ્લ <i>ન</i>) (ફ.વા. ણ્	ત. જા છાકુળર)
क्र सं	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2025 (अनंकेक्षित)	समाप्त छह महीने 30.09.2025 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2024 (अनंकेक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	2743.89	5,412.68	2,539.85
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर पूर्व, असाधारण और/या विशेष मदों से पहले)	11.07	76.62	15.13
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर पूर्व (असाधारण और/या विशेष मदों के बाद)	11.07	76.62	15.13
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या विशेष मदों के बाद)	11.07	71.40	11.20
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय {अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात)}	11.07	71.40	11.20
6	इक्विटी शेयर पूंजी	330.25	330.25	330.25
7	भंडार (पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की ऑडिट की गई बैलेंस शीट में दशायां गया है	0,00	0.00	0.00
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक की) (जारी और बंद परिचालन के लिए)			
Ŷ.	मूलः	0.03	0.22	0.33
	ग्राल:	0.03	0.55	0.22

उपरोक्त सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। उक्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.amspolymers.com पर उपलब्ध है। उपरोक्त परिणाम कंपनी (इंड एएस) नियम, 2015 के अनुसार तैयार किए गए हैं।



तिथि: 14.11.2025

निदेशक मंडल की ओर से एमएस पॉलिमर्स लिमिटेड आनंद कुमार प्रबंध निदेशक DIN: 01381489

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र-400051 शाखा कार्यालयः कोटक महिद्रा बैंक लिमिटेड, ३, शाहनजफ रोड, स्पीड बिल्डिंग-, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226001 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

तेषुति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत पटित वितीय प्रतिभृतिकरण एवं युनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिलंपतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी विकी सूचना।

एसएमएकजी इंडिया होंग फाइनेंस कंपनी विमिटेत (जिसे आगे 'एसएमएकजी' कहा जाएगा) (पूर्व में फुलटेन इंडिया होग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) हारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेंद्र के प्राधिकृत अधिकारी (जिसे आगे "बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता" बहा जाएगा) ने 23,09,2025 को सुरक्षित जेनदार के पास गिरवी/बार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे लुरक्षित रापत्ति कहा जाएगा) का मौतिक कब्जा ले लिया है।

इसके द्वारा विशेष कम से उपारकर्ता (ओ) और गारंटर (ओ) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि केंक ने करण खाता संख्या 610607210530210 के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भी महेश कमार वर्मा और श्रीमती ममता सिंह द्वारा लिया गया ऋण की 12.11.2025 तक बकाया ए.30,31.850./-- (तीस लाख इकतीरा हजार आत सी तीस रूपमें मात्र) बकाया तथा वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की जन्ती के लिए सरफंती अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहल ई-मीलामी के मध्यम से लुरक्षित संपत्ति को refrance to come de refrance de character adha trade areas de sú comme mo dessá ano objector filoson de c

विशेष	विवरण
नीलामी की तिथि	18,12,2025
नीलांगी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच
भारतित मृत्य	७.18.00.000 / - (केंगल अटारह लाख रुपये)

वयाना राज्ञि जमा (इएमडी) **ए.1,80,000/— (केंदल एक लाख अरखी हजार 'एपदी)** केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 17 12,2025 साथ 600 बजे तक (आईएसटी) **चुरकेट संपत्ति का विकरण** प्राण सैवपुर जागीर, परगना अध्यनक अस्तीत — बध्वति का राज्याव, विका सावनक- 226024 में विधान पर्या संदेशा 17, खररत संदेशा 75, मिन क्षेत्रफल 850 वर्ग फुट वानी 80.428 वर्ग मीटर वाली संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकडा एवं श्रंश। संपत्ति

की सीमाएँ इस प्रवरत हैं: पूर्व प्लॉट संख्या 21, परिचम 20 फुट चौड़ी सहक, उत्तर प्लॉट संख्या 18 (सुनील लोगी), दक्षिण गृह पिक्रेता

उद्यारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेरी अधिनियम की धारा 13 की वप-धारा a के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारवादों और सह-उधारवादों तथा सामान्य रूप से अनता कृपण ध्यान दें कि बाँदे यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी साथि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित बिकी के तहत रखी गई परिसंगतियों के संबंध में किमी समधीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता समधीकरण के लि

श्री तोनेश जुन्दरियाल/श्री श्रेष्ट शुक्ला (मो.नं+१४१९११०६६३४०३:/१४१६३६०७७७११६४)और श्री अदित तोलंकी (मोबाइल नं 917302111608) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता बैंक के आईबीआर नंबर (91-9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिक्कों के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंदा बैंक की वेबसाइट अर्थात WWW.KOTAK.COM तथा/अथवा HTTP://BANKAUCTIONS.IN/ पर चपलक लिंक https://bankeauctions.com/kotak देखें | स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश प्रामिक्त अधिकारी, कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेंब दिनांकः 14.11.2025

epaper.jansatta.com



KARVY FINANCE

Corporate Office: M/s. Karvy Financial Services Limited, 301, 3rd Floor, Gujrals house, 167 CST Road, Kolivery Area Village, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400098. Email: reddy.laxma@karvyfinance.com; Contact No.: 9010191999

PUBLIC NOTICE FOR TENDER-CUM-AUCTION SALE UNDER PRIVATE TREATY

SALE NOTICE THROUGH AUCTION UNDER SARFAESI ACT. 2002 CUM NOTICE TO SALE TO BORROWERS/GUARANTORS. RULE 8(6) UNDER SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

In exercise of powers conferred under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and pursuant to the possession of the secured assets of the borrower(s)/ mortgagors mentioned hereunder, the public and all concerned including the concerned borrowers/mortgagors, their legal heirs/representatives, as the case may be are hereby informed that offers are invited by the Karvy Financial Services Ltd for purchase of the properties listed below.

Whereas the authorized officer of the Karvy Financial Services Ltd has decided to sell the property described herein below on "AS IS WHERE IS BASIS" AND "AS IS WHAT IT IS BASIS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" BY WAY OF PRIVATE TREATY under rules 8 & 9 of the said Act, through public auction.

l	Name Of Borrower			Description of the	Reserve	Earnest Money	Total Loan
l		Date	Notice Date	Immovable property	Price (RP)	Deposit (EMD) Date &	Outstanding as on
L			and Amount			Amount (10% of RP)	11.11.2025
l	Loan Code No.	1st	9-April-2022	A Residential Flat being room No : C-10, Krishna	Rs 815000/-	Rs. 81500/- (Rupees	Rs. 6306753/-
ı	542500 & 542502	December	&	Complex, Also known as Ganpati Enclave, Serve	(Rupees Eight	Eighty One Thousand	(Rupees Sixty Three
ı	Borrower & Co-Borrowers	2025	Rs.3692628/-	Number : 9/1/2/1/7, Unit No. 39, Village Banjari,	Lakhs Fifteen	Five Hundred Only)	Lakhs Six Thousand
l	1.Manish Doulat Kukreja			District Bhopal. East : Open Space, West : Open	Thousand	& 28th November	Seven Hundred and
l	2.Bhavya Kukreja			Land, North : Open Space, South : Other Plot	Only)	2025	Fifty Three Only)
ŀ	3.Vidhya Kukreja						

IMPORTANT TERMS & CONDITIONS:

- 1. The intending bidders should be present in person for the Auction & participate personally and give a declaration in writing to the effect that he/she is bidding for himself/
- 2. The intending bidders may obtain the Tender Forms from M/s Srishti Enterprises, Office No. 101, Gammon Mall, South TT Nagar, Bhopal 462003, Mob 8871291620/9010191999
- 3. The tenderers/ offerers/ prospective bidders/ purchasers should submit their offer along with earnest money deposit (EMD) as referred in column (E) by way of demand draft or pay order favoring M/s. Karvy Financial Services Ltd, payable at Bhopal in sealed envelope mentioning "Offer for purchase of the Immovable Properties/Property" so as to reach with our authorized officer/person **B Laxma Reddy**: 9010191999 on or before the last date for submission of bids. The amount of EMD paid by the successful bidder shall be adjusted towards the sale price.
- For document verifications, intending purchaser may visit: M/s Srishti Enterprises, Office No. 101, Gammon Mall, South TT Nagar, Bhopal 462003, Mob 8871291620/9010191999
- The Property/ies is sold on "AS-IS-WHERE-IS" AND "AS-IS-WHAT-IS" AND "WHATEVER THERE IS" BY WAY OF PRIVATE TREATY.
- The Sealed Tenders will be opened in the presence of the intending bidders on date of Auction of Tender-cum-auction Sale hereby notified. Though in general the same will be by way of closed tenders, the Authorized Officer may, at his sole discretion, conduct an open Auction among the interested bidders who desire to Quote a bid higher than the one received in the closed tender process, and in such an event, the sale shall be conferred on the person making highest bid. The sale, however, is subject to confirmation of M/s. Karvy Financial Services Limited.
- 7. The successful bidder shall have to pay/ deposit twenty five per cent (25%) (inclusive of EMD paid) of the sale amount immediately on the same day or not later than next working day on completion of sale and the balance amount of seventy five per cent (75%) within 15 days from the date of confirmation of Sale, failing which the initial deposit of 25% shall be forfeited. At any cost it shall not be refunded. The property shall forthwith be put up again and resold, after the issue of fresh proclamation of sale.
- 8. The Sale Certificate will be issued by the Authorized Officer in favor of the successful purchaser only after receipt of the entire Sale consideration within the time limit
- 9. The Successful purchaser shall bear the charges/fees payable for conveyance, such as stamp duty, Registration Fee etc., as applicable under law.
- 10. The Successful bidder should pay the statutory dues (lawful house tax, Electricity Charges and other Dues), TDS, GST if any, due to Government, Government undertaking and Local bodies.
- 11. The Authorized Officer has absolute right to accept or reject Tender or Bid any or all the offers and adjourn/postpone/cancel the Auction without assigning any reason thereof and also modify any terms and conditions of the sale without assigning any reason thereof and also to modify any terms and conditions of the sale without any prior notice.

Sd/-Place: Bhopal **Authorized Officer** KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED. Date: 13th November, 2025



Recovery Section, Regional Office

Plot no. 39, 1st Floor, Near Bohra Hyundai, Neelam-Bata Road, Faridabad Contact no. 0129-2413997 email id: rofbdrec@canarabank.com

Total Liabilities as

30 DAYS SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provide to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorized Officer of respective Canara Bank Branches, will be sold on "As is where is", "As is what is, and "Whatever there is" E-auction arranged by the service provider of following details.

LAST DATE OF RECIEPT OF EMD IS 20.12.2025 AT 5.00 PM(OFFLINE OR ONLINE)

DATE OF E-AUCTION IS 22.12.2025 12:30 PM TO 1:30 P.M.

(With unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale) Branch Name/ Name &

	Borrower(s) / Guarantor(s)
A western forming p Mauza U No,8-13, Bounded (Eastern I Borrowe	Sh. Nishant Sinha, Canara Bank- 7496918308, Ph. No. 8600518162 during office hours on any working day. E-mail id: cb3398@canarabank.com Or Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com

Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-

during office hours on any working day.

E-mail id: cb18224@canarabank.com

Or Helpdesk No 8291220220, E-mail:

support.ebkray@psballiance.com

Property/ies on specified Date m portion of Tukra /Plot No 9, area measuring 76.85 sq.yards Total liabilities as on part of Rect.No 18,Killa No.7/1(0-16),7/2(5-18) situation in 0 1 . 0 3 . 2 0 0 8 : : R s . Incha Gaon, Bhatla Colony Ballabgarh now known as MCF 413705/- Rs. 495674/-Bhatia Colony Milk Plant Road, Ballabgarh Haryana. plus further interest & as Under:North: Rasta, East: Part Portion of H No B-13 other charges (m inus r e Part), West: Vacant Land, South: Others House er: 1. Yogender Partap Singh S/o Vijay Pal. Address: B-13 , Bhatia Colony, Milk Plant Road, Faridabad 2. Smt. Indira Bhatia W/o

Rs. 12.15 Lakhs / Rs. 1.22 Lakh Symbolic Possession

Reserve Price / EMD (In Rs)

Possession Type

Late sh. Yogender Pratap Address: B-13, Bhatai Colony, Milk Plant Road, Faridabad

All that part and parcel of the property consisting of Extent of 6/50th 7496918308, Ph. No. 7496918224

Brief Description of

share which bears Khewat/Khatoni No. 614/666, Rect. No. Killa no. - Total liabilities as on 18(2-10), the share of the applicant comes 0 kanal 6 marla situated 21,69,121.31 plus further within Mauja Bamnikhera, Tehsil & Distt. Palwal, Haryana 121105 interest & other charges Bounded as Under: East: Rasta Aam, West: House Of Roop Lal North: (minus re covery, if any) Vacant Plot Of Shankar And House Of Kanhaiya Lal, South: House of

Rs. 29.63 Lakhs / Rs. 2.97 Lakh Symbolic Possession

Borrower: 1. Mrs. Bimla Rani W/o Yad Ram VPO-Bamnikhera, District Palwal-121105 2. Mr. Yadram S/o Sh. Pyarelal VPO-Bamnikhera, District Palwal-121105.

Other terms and conditions:

 a) The property is being sold with all the existing and further encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property to his satisfaction. The bidder are advised to in their own interest to satisfy themselves with the title and correctness of others details pertaining to the secured assets including the size/area of the immovable secured asset in question and also ascertain any other dues/liabilities/encumbrances from the concerned authorities to their satisfaction before submitting the bid. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the authorized officer/Secured Creditors in this regard at a later date.

b) In the event of any default in payment of any of the amounts, or if the sale is not completed by reasons of default on the part of the purchasen bidder within the aforesaid time limit, the bank shall be entitled to forfeit all monies paid by the purchaser/bidder till then and put up the secured asset(s) for sale again, in its absolute discretion. Further, all costs, expenses incurred by the bank on account of such resale shall be borne and paid by the defaulting purchaser.

c) The property is being sold with all the existing and further encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property to his satisfaction. The purchaser shall not be entitled. to make any claim against the authorized officer/Secured Creditors in this regard at a later date

d) Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://ebkray.in. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.

e) The property can be inspected, any time with Prior Appointment with Authorized Officer on or before the date of submission of EMD i.e. 20.12.2025.

The property will be sold for the price which is more than the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process.

g) EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (E-bkray) portal directly or by generating the Challan therein to deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan

 h) Intending bidders shall hold a valid digital signature certificate and e-mail address. For details with regard to digital signature please contact the service provider M/s PSB Alliance. (Ebkray), Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com through the website https://ebkray.in. After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents/details on or before 20.12.2025 by 05.00 pm, to Canara Bank, and their

respective Branches, by hand or by email Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No.

i) Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount.

 Bidders Name, Contact No. Address, E Mail Id. iv)\ Bidder's A/c details for online refund of EMD.

j) EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest

k) Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs. 10,000/-. The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favors of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor.

I) The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorized Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again.

m) For sale proceeds of Rs. 50 (Rupees Fifty) lacs and above, the successful bidder will have to deduct TDS at the rate 1% on the Sale proceeds and submit the original receipt of TDS certificate to the Bank.

All charges for conveyance, stamp duty/GST registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only.

Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof.

In case there are bidder who do not have access to the internet but interested in participating the e-auction, they can approach concerned Circle Office or respective branch who , as a facilitating centre, shall make necessary arrangements for further details Contact No. Ph. 0129-2413997 Email id: rofbdrec@canarabank.com

Date - 14.11.2025 Place - Faridabad

Authorized Officer Canara Bank



GRAVISS HOSPITALITY LIMITED

CIN: L55101PN1959PLC012761

Regd office: Plot no. A4 & A5, Khandala MIDC, Phase II, Kesurdi, Khandala, Satara- 412 801 (Maharashtra).

Extract of unaudited Financial Results for the Quarter and six months ended September 30, 2025

		g.	Stand	alone	3	Consolidated			
Sr	Particulars	9	Quarter ende	ed	Year ended	Quarter ended			Year ended
No.		30-09-2025 Unaudited	30-06-2025	30-09-2024	31-03-2025	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024 Unaudited	31-03-2025
			Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited		Audited
1	Total Income from operations (net)	1,189	1,136	1,178	5,725	1,243	1,222	1,374	6,317
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	(155)	(217)	9	458	(210)	(263)	42	214
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	(74)	(176)	858	1,192	(129)	(222)	891	939
4	Other Comprehensive Income (after tax)	*	1.4	7	1				1
5	Total Comprehensive Income (after tax)	(74)	(176)	858	1,193	(129)	(222)	891	940
6	Equity Share Capital	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
7	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualized)								
	(1) Basic (Rs):	(0.10)	(0.25)	1.22	1.69	(0.18)	(0.31)	1.26	1.33
	(2) Diluted: (Rs):	(0.10)	(0.25)	1.22	1.69	(0.18)	(0.31)	1.26	1.33

The above Unaudited standalone and consolidated results for the quarter and six months ended 30th September, 2025 which have been prepared in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subjected to review by the Statutory Auditors of the Company and were reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors and the Board of Directors at their meeting held on 13-11-2025.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website www.gravisshospitality.com and Stock Exchange website(www.bseindia.com).



For Graviss Hospitality Limited

Romil Ratra **CEO & Whole Time Director**

E-Auction Date and Time,

EMD Submission Last

Date, Place of Submission

of Bids and Documents,

Account No. and Name

of borrower/

Co-borrower/

Date: 13-11-2025

Mumbai

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, Rajasthan (India) CIN: L36911RJ1996PLC011381 APPENDIX-IV-A

Reserve Price,

Earnest Money

Deposit & Bid

Increment Amount

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read

It is hereby informed you that we are going to conduct public E-Auction through website https://sarfaesi.auctiontiger.net.

Date & Amount as per Demand

Notice U/s 13(2) & Date of Physical

Possession and amount as on

[See proviso to rule 8(6)]

with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor(s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank), the same shall be referred herein after as AUSFB. The Secured Assets, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction for recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost, charges and expenses being due to AUSFB viz. Secured Creditor.

Descriptions of the

property/Properties

Mortgagors/ Guarantor	(Date)	50 April 32 1000 100	(Amount in Rs.)	Inspection Date
A/c No. 2406245556814350 M/S. MAA SHAKUMBHARI TRADERS THROUGH IT'S PROPRIETOR MR. VINEET GUPTA (Borrower) MR. VINEET GUPTA S/O MR. RAM NATH GUPTA (Guarantor/Mortgagor)	Loan Account No. 2406245556814350 is Rs. 66,28,798/- (Rupees Sixty Six Lakh Twenty Eight Thousand Seven Hundred Ninety Eight Only) as on date 29-04-2025 Physical Possession done on 06 October 2025 For Loan Account No. 2406245556814350 is Rs. 72,74,051/- (Rupees Seventy Two.	All That Part and Parcel of Commercial Property, One Shop on Ground Floor, Northern Side Portion, Without Its Roof Rights, Area Measuring 8.45 Sq. Mtrs., i.e., 10.11 Sq. Yards on Property Bearing New Municipal No. 2599 & Old No. 1203, Situated at Ward No. III, Nai Basti, Naya Bazar, Delhi. Owned by Mr. Vineet Gupta. Bounded as Under:- East: Remaining Portion of 2599 West: Others Property North: Gali	Rs. 65,00,000/- (Rupees Sixty Five Lakh Only)	18-December-2025 From 02:00 PM to 04:00 PM With unlimited extension of Five Minutes Last Date of Bid Submission 17-December-2025 Upto 06:00 PM AU Small Finance Bank Limited, 648-650, 657, First Floor, Fatehpuri Masjid, Church Mission Road, Chandni Chowk, Delhi- 110006
MRS. RICHA GUPTA W/O MR. VINEET GUPTA (Guarantor)	Lakh Seventy Four Thousand Fifty One Only) as on date 03-Nov-2025 plus, Future interest & charges extra.	South: Remaining Portion of 2599 Total Built Up Area 90.95 Sq. Ft. Approx.	Twenty Five Thousand only)	rakesh.jain1@aubank.in Inspection Date 11-12 December 2025

All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction_for further_details including Terms & Conditions, to take part in e-auction sale proceeding and are also advised to contact Mr. Rakesh Jain, Contact Number 9116181827 and e-mail of rakesh.jain1@aubank.in. THIS IS ALSO A STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE TO BORROWER / MORTGAGORS The terms and conditions of e-auction sale:-

1. The E-Auction sale of Secured Asset is on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis for and on behalf of the Secured Creditor viz. AUSFB and there is no known encumbrance which exists on the said property. 2. For participating in online e-auction sale, Bid document, copies of PAN Card, Board Resolution in case of Company and photo ID, address proof are required to be submitted along with EMD, which is payable by way of RTGS/NEFT in the name of MSME AUCTION POOL ACCOUNT OF AU Small Finance Bank Limited, Current account No.1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED Fifth and Sixth Floor Sunny Big Junction STC Khasra No. 64 to 67, Gram Sukhaipura New Atish Market Jaipur 302020, IFSC Code: AUBL0002011, Once an Online Bid is submitted, same cannot be withdrawn. Further any EMD submitted by bidder will be required to send the UTR/Ref no of the RTGS/NEFT with a copy of cancelled cheque on the following email IDs i.e. rakesh.jain1@aubank.in 3. All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction for further details including Terms & Conditions, to take part in e-auction sale proceeding and are also advised to contact Mr. Rakesh Jain, Contact Number 9116181827 and e-mail of rakesh jain 1@aubank.in Place : Delhi Date : 13 Nov. 2025 Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED CIN L80902DL1983PLC209722

Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi - 110 001; Phones: (91) (11) 2378 2022; Fax: (91) (11) 2378 2806; Email: cs@somanigroup.com; website:www.eesl.in

Extract of Statement of Standalone & Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th Sep 2025 (Rs. in Lacs Except Number of Shares & EPS)

Т		Standalone						Consolidated					
Particulars		Quarter Ended			Year to Date Period Ended		Year Ended	Quarter Ended			Year to Date Period Ended		Year Ended
		Annual President and the	30th June 2025 Un-Audited			30th Sep 2024 Un-Audited	31st Mar 2025 Audited		30th June 2025 Un-Audited		Service de la constant de la constan		31st Mar 2025 Audited
	Total Revenue	12,328.20	5,417.60	5,138.89	17,745.80	64,094.56	79,877.63	12,325.13	5,414,51	5,135.88	17,739.64	64,088.61	79,865.77
2	Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items))	(23.71)	61.84	1.17	38.13	710.11	533.09	(26.89)	58.60	(2.01)	31.71	703.81	520.43
5	Profit/Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(23.71)	61.84	1.17	38.13	710.11	533.09	(26.89)	58.60	(2.01)	31.71	703.81	520.43
	Profit (+)/Loss(-) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(17.44)	46.56	0.78	29.12	532.12	396.72	(20.10)	43.85	(1.87)	23.75	518.47	377.70
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(17.44)	46.56	0.78	29.12	532.12	396.12	(20.10)	43,85	(1.87)	23.75	518.47	377.10
1	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- Per Share)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves, as per Balance Sheet of Previous Accounting Year		89		9		2,509.92				194	(3)	2,320.23
	Earning Per Share (Before Extraordinary Items) (Not Annualised) (A) Basic (B) Diluted	(0.38) (0.38)	1.02	0.02	0.64 0.64	11,65 11,65	8.68 8.68	(0.44)	0.96 0.98	(0.04)	0.52 0.52	11.35 11.35	8.27 8.27
	Earning Per Share (After Extraordinary Items) (Not Annualised) (A) Basic	(0.38)	1.02	0.02	0.64	11.65	8.68	(0.44)	0.96	(0.04)	0.52	11.35	8.27

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The Full format of the Standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company's website www.eesl.in.



New Delhi


BY ORDER OF THE BOARD FOR EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED (CHAIRMAN)

DIN: 00011233

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS

KNOWLEDGE

♦ FINANCIAL EXPRESS



(B) Diluted

PLACE :- NEW DELHI

DATE: - 12.11.2025